MPS Infotecnics Limited

CIN: L30007DL1989PLC131190 An ISO 9001 - 2008 Company



To,

Date: 23rd July, 2020

The Manager-Listing
National Stock Eyebangs of India

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex (E), Mumbai-400051 The Manager-Listing
BSE Limited
FLOOR 25, P J Towers,

Dalal Street, Mumbai-400001

NSE Symbol-VISESHINFO

Scrip Code-532411

Sub: Intimation on publication of newspaper advertisement regarding Board Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement published in newspaper namely, 'Business Standard' (English and Hindi) dated 23rd July,2020 intimating about the Board Meeting scheduled to be held on Thursday, July 30, 2020.

The same will be available on the website of the Company: $\underline{www.mpsinfotecnics.com}$.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking You

Yours faithfully For MPS Infotecpics Limited

Garima Singh

Company secretary

Corporate Office: 8-55, Sector - 65, Noida (U.P.)-201301 Ph; +91-0120-4713900, Fax: +91-0120-4324040

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-1 Ph.: 011-43571044, Fax: 011-43571047

E-mail: info@viseshinfo.com

When broke, apply for bankruptcy

But it has to pass a tough judicial test due to archaic laws

BINDISHA SARANG

ver the years, we have heard stories about celebrities like Michael Jackson, Mike Tyson, Donald Trump and Vijay Mallya going broke, and some even filed for bankruptcy. However, it is rare to hear about individual bankruptcy/insolvency cases in India because the laws are much tougher, and of course, social stigma. The good thing is that you can do so even if you owe someone as little as Rs 500. according to the existing law which is almost over a century old. No wonder, the process can be excruciating. Suresh Surana, founder, RSM India says: "Bankruptcy arises where a person is unable to pay his debts. However, a person is considered bankrupt only when he is adjudged as one by the judicial authorities."

Though the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) came into effect on December 2, 2016, and has rules for individual bankruptcy too, they have not been notified yet. Says Sandeep Bajaj, Founder & Managing Partner, Advocates & Solicitors: "At present, in respect of Individual Insolvency and Bankruptcy, the proceedings are governed by Presidency Insolvency Act, 1909 (applicable to proceedings to be instituted before the High Courts of Calcutta, Bombay and Madras) and the Provincial Insolvency Act, 1920 (which applies to the rest of India). Once the provisions of the Code are notified, the repeal Section 23 of the Code shall come into force and the aforementioned statutes you need to approach a lawyer shall cease to affect." Note that to file a proposal in the court, the provisions of both the Acts along with the necessary docu-



■ Minimum ■ Who can threshold: ₹1,000 (Could rise to ₹1 lakh)

initiate: Debtors and Creditors

■ Authority for initiating: **Debt Recovery** Tribunal

Authority issues public notice in newspapers

■ Proceedings can be initiated against any individual who defaults in debt repayment

■ Under IBC, an individual can apply for bankruptcy even if the spouse is working and has regular income

■ If the loan is joint, both the borrowers are required to file for insolvency proceedings if unable to repay

Shah Associates says: "The prevailing bankruptcy laws do not distinguish between salaried or self-employed individuals. An individual who owes a debt to a person and is not able to discharge the same owing to his deteriorating financial conditions can apply for bankruptcy.

The process: Once you have decided to file for bankruptcy, mentation. After analysing if Gopal Bohra, Partner, NA the conditions for filing have

or reject the petition. Once you file the petition, a hearing date is announced and the court who takes immediate possesdebtor. Aishwarya Satija, research fellow, Vidhi Centre for Legal Policy, an independent legal advisory group, explains: "Under the IBC,

there's an automatic stay

mechanism in place. But under

the current laws, you can

been met, the court may accept any legal proceedings against the property or assets of the

appoints an interim receiver **Adjunction:** On the hearing date. if the court finds that your sion of the property of the petition is satisfactory, it will pass on "order of adjunction" which will make you - the debtor - an undischarged insolvent. After this, the courtappointed officer will sell off your property, if any. The monev recovered after the sale will be distributed among the apply for a stay order from the debtors. Adds Borah: "The discourt, and it can give a stay on tribution will be made in order

of priority. First bankruptcy expenses, workmen's dues, secured creditors and unpaid dues of employees will be distributed, and after that, any surplus leftover will be distributed to Central Government and State Government. In case the bankrupt has any past income tax outstanding liability, the same will be paid if there is any surplus available after discharging other creditors in the order of the priority. The remaining income tax liability after the distribution will cease to exist." It is important to note that while the insolvency proceedings are pending before the court, you can apply for a minimum maintenance amount but it is a discretionary relief that varies from case

Finally, you need to collect the "absolute discharge certificate" from the court, which will happen only once the entire process of distribution is finished. The court considers many parameters; for instance, is the insolvency resulted due to misfortune. Was there any fraudulent activity or dishonest conduct on part of the debtor? After this, remaining, unpaid debts are cancelled. Creditors cannot force him to repay the debt amount. You may not be able to get a clean chit regarding all debts, if you owe the government or have committed any financial fraud, you will have to cough up the money. Satija says: "The criteria to establish your inability to pay the debt, takes time too.'

While it isn't an easy decision, the process is also complicated and time-consuming especially since we are stuck in the older law. Not many have walked down this path, partially because of the social stigma, partly because of old rules, partly due to fear of approaching lawyers and courts. Ajay Shaw, partner, DSK Legal, says: "There is why there is an immediate need to usher in the individual insolvency provisions under the IBC. The IBC is a composite framework that contemplates a fair and orderly process for dealing with the insolvency situation for individuals. It is expected to make the process more timebound than what the current

Where does magazine jurisdiction lie?



CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

two subscriptions.

Since the magazine

was not received by him

J Abhilash Krishna bought a subscription scheme floated by Competition Review, a Delhi-based private limited company, for its magazine Competition Success Review. The scheme provided that a person buying an annual subscription would be entitled to an additional complimentary subscription. Krishna paid ₹900 for the annual subscription and a further amount of ₹200 towards delivery charges. And he gave two addresses - one of Bijapur and the other of Pune, for receipt of the

at his Bijapur address, territorial Krishna had a legal notice issued but did not National receive any response. Krishna then filed a aside their orders complaint before the District Forum for Bijapur. The company sent a letter stating that it was being run by an 80-year old person who would not be able to attend the hearing. The letter also stated that the terms and conditions governing the subscription provided that all disputes would be subject to Delhi jurisdiction and would be decided by a sole arbitrator to be appointed by the company.

The Bijapur District Forum concluded that it did not have the jurisdiction to entertain the complaint in view of the arbitration clause, and also because it lacked territorial jurisdiction since the company was located in Delhi. When Krishna challenged the order before the Karnataka State

Commission, which concurred with the view and dismissed his appeal. Krishna then approached the National Commission and requested that the revision should be decided on merits on the basis of his written submissions without requiring him to attend the hearings.

The National Commission relied on its own judgement in Aftab Singh v/s Emaar MGF Land and Ors. where it had reiterated that the view taken by the Supreme Court of India in Fair Air Engineers v/s N K Modi would remain unaltered even after the amendment of the Arbitration and Conciliation Act. The interpretation of the law in Aftab's case was upheld by the Supreme Court. So the Commission concluded that an arbitration clause in an agreement would neither oust the jurisdiction of the consumer fora nor debar a party from availing of the additional remedy available

under the Consumer Protection Act. It held the complaint to be maintainable.

Both the District Forum and State The National Commission Commission observed dismissed the that the Forum that failed case claiming to consider that a part of the cause of action would they did not have occur at the place where jurisdiction. The the magazine was to be delivered but was not **Commission set** received by the

subscriber. Since one of the two subscriptions for the magazine was to be delivered to Krishna at his Bijapur address, the National Commission held that the Forum has erred in exercising jurisdiction even though the complaint was maintainable before it.

Accordingly, by its order of July 13, 2020, delivered by Prem Narain, the National Commission set aside the orders of the District Forum as well as the State Commission. It held the complaint to be maintainable. It also ordered a refund of the entire amount paid by Krishna along with delivery charges of ₹1,100. In addition, ₹5,000 was awarded as compensation and ₹4,000 towards litigation costs.

The author is a consumer activist



Sr. No. Particulars

Sr. No. Particulars

Pune

22 July 2020

Total income

Profit before tax

Profit after tax

Revenue from operations

Paid-up equity share capital

Key standalone financial information is given below:

Profit for the period (attributable to owners of the company)

Other equity (as shown in the Balance Sheet of previous year)

Basic and diluted earnings per share (₹) (not annualised)

Total comprehensive income (attributable to owners of the company)

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India of the Board of Directors of the Company shall be held on Thursday, August 13, dated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

This intimation is also available on the website of the Company at shares of the Company are listed at www.bseindla.com and www.nseindla.com. For Hero MotoCorp Ltd.

Place : New Delhi Company Secretary & Date : July 22, 2020 **Chief Compliance Officer**

MPS Infotecnics Limited CIN: L30007DL1989PLC131190

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Ph. No.: +91 11 43571044; Fax: +91 11 43571047

Notice

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, of the Listing Regulations 2015, meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, 30th July, 2020 at 1:00 p.m. at the registered office of the Company at 703, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter-alia, to consider and approve Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter and Year ended on March 31, 2020.

The said information is also available on the Company's website at www.mpsinfotec.com under Investors Zone and the same has been uploaded in NEAPS and BSE Listing Center and is also available on Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

(Reviewed)

90.25

708.27

679.13

111.29

2,194.30

Quarter ended

30.06.2020

(Reviewed)

71.27

For MPS Infotecnics Limited

(Reviewed)

78.59

690.10

669.28

4,273.67

Quarter ended

30.06.2019

(Reviewed)

83.28

42.69

111.29

Place: New Delhi Date: 23.07.2020

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65993PN1945PLC004656

Registered Office: Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune 411 035

Website: www.bhil.in | E-mail ID: investors@bhil.in | Telephone: +91 20 27472851

Extract of consolidated unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020

Note: The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020 which have been reviewed by the Audit Committee, approved

by Board of Directors at its meeting held on 22 July 2020, subjected to limited review by statutory auditors and filed with the stock exchanges under

Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available

on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bhil.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com

Garima Singh Company Secretary

JAMSHRI REALTY LIMITED CIN: L17111PN1907PLC000258 egd. Office: Fatehchand Damani Nag Station Road, Solapur – 413 001. Tel.: 0217-2380914, Fax : 0217-238093

NOTICE NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday the 29th July, 2020, at Regd. Office of the Company at Fatechanc Damani Nagar, Jammill Compound, Solapur-413001, at 5.00 p.m.(S.T.) to consider the Audited Financial Results of the Company for the 4th Quarter and year year ended 31st

For JAMSHRI REALTY LIMITED

(₹ In Crore)

31.03.2020

(Audited)

393.38

3,313.67 2,992.00

4,339.89

27,652.25

(₹ In Crore)

Year ended

31.03.2020

(Audited)

2,205.86

2.048.09

1.826.87

Saniiy Bajai

111.29

268.8

JOINT MANAGING DIRECTOR



Plot Nos. B-12 to B-15, Phase II, MEPZ- SEZ, Tambaram, Chennai 600045

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI / HO/ MIRSD/ DOS3/ CIR/ P/2018/139 dated 6th November, 2018, requests have been received by the Company from Ms. Nitaben A Lalcheta, A/152 Ayodhya Nagar Society, Behind Bright School, VIP Road, Karelibag, Vadodara - 390018 along with the Court Order (Obtained Order from 28th Additional Senior Civil Judge Vadodara Court vide civil Suit No. 457 of 2018) for issue of duplicate share certificate and thereafter transfer the shares that are held in the name of the shareholders as detailed below, in buyer's name. These shares were claimed to have been purchased by them and could not be transferred in their favour.

	SI No.	Name of the Transferor (Seller)	Name of the Transferee (Buyer)	Folio No.	No.of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos.	
	1.	Sanjay Kumar N Shah	Nitaben A Lalcheta	00008880	112	8883 41559	8116501 to 8116600 30616450 to 30616461	
ĺ	Any person who has a claim in respect of the above mentioned shares, should							

lodge such claim with the company at its registered office within 30 days from this date along with appropriate documentary evidence thereof in support of such claim, else the company will proceed to transfer the securities in favour o the respective claimants without any further information.

Place : Chennai Date : 21st July 2020 For Igarashi Motors India Limited P.DINAKARA BABU

Company Secretary

Tel. No. (022) 23075677 / 23074585, Fax No. (022) 23080022

Elliai : ino@nsillechtex.com website : www.nsilitechtex.com						
STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 ⁵⁷ MARCH 2020 (Rs. In Lacs)						
(MS. IN L Quarter Ended Year Ended						
Particulars Particulars	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019		
	Audited	Audited	Audited	Audited		
Total income from operations	2002.90	2395.29	7622.39	8397.25		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	44.73	128.05	221.54	404.25		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.73	128.05	221.54	404.25		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-27.96	71.97	99.66	292.17		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	-28.90	71.03	98.97	291.23		
Equity Share Capital	739.10	739.10	739.10	739.10		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	1880.17		1880.17	1781.20		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
Basic:	-0.39	1.10	1.35	3.95		
Diluted:	-0.39	1.10	1.35	3.95		

- The Above audited financial results have been reviewd by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 21st July, 2020.
- The financial results for the quarter and year ended March 31, 2020 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of
- the audited figures in respect of the full financial year and the published figures of nine months ended December 31, 2019 and December 31, 2018 respectively.

For RISHI TECHTEX LTD. Abhishek Patel

RISHI TECHTEX LIMITED
CIN: 128129MH1984PLC032008
612, V. K. Industrial Estate, 10-14 Pais Street, Byculla (W), Mumbai 400 011 Email: info@rishitechtex.com Website: www.rishitechtex.com

(Rs. In Lacs)						
	Year Ended					
Particulars	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019		
	Audited	Audited	Audited	Audited		
Total income from operations	2002.90	2395.29	7622.39	8397.25		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	44.73	128.05	221.54	404.25		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.73	128.05	221.54	404.25		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-27.96	71.97	99.66	292.17		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	-28.90	71.03	98.97	291.23		
Equity Share Capital	739.10	739.10	739.10	739.10		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	1880.17		1880.17	1781.20		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
Basic:	-0.39	1.10	1.35	3.95		
Diluted:	-0.39	1.10	1.35	3.95		
Notes:						

- The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- the Companies Act 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable The figures for the quarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figure between
- 5. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website and or www.rishitechtex.com

Managing Director DIN: 05183410

CIN: L99999MH1992PLC066412 612, V. K. Indl. Estate, 10/14

RISHI LASER LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and 2015 and any amendments thereof, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday July 28, 2020, inter alia, to conside approve and take on record the audite Consolidated) for the quarter and yea ended March 31, 2020.

the Company's website www.rishilaser.com and also on the website of the Stock Exchange a www.bseindia.com

For RISHI LASER LIMITED **Managing Directo** Place : Mumbai

Date : July 23, 2020

MEGASOFT LIMITED

tchery Road, Mylapore, Chennal-600004, +91 (44) 2461 6768, Fax: +91 (44) 2461 78: Email ID: investors@megasoft.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, July 30, 2020 inter alla to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 220

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.megasoft.com and may also be accessed on the Stock Exchange Websites at http://www.bseindia.com and

	For MEGASOFT LIMITED
	Sd/-
Date: 21.07.2020 Place: Hyderabad	(Shridhar Thathachary) Chief Financial Officer

A sed done	ALLIED DIGITAL
ner/hernin	SERVICES LIMITED
EGD. OFF	ICE: Premises No.13A, 13th Floor, Earnest Hou
NCPA Ro	oad, Block III, Nariman Point, Mumbai- 400021
	CIN:L72200MH1995PLC085488
DUONE 0	00 00040400 INEDOITE

PHONE: 022-66816400; WEBSITE:www.allieddigital.net
-MAIL:cs@allieddigital.net / investors@allieddigital.net
NOTICE OF BOARD MEETING
rsuant to the Regulation 29(1)(a) read with Regulation
(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
quirements) Regulations, 2015, (as may be amended
m time to time). Notice is hereby given that a meeting of
Board of Directors of the Company is scheduled to be

eld on Thursday, July 30, 2020 to consider, approve a inancial Results of the Company for the quarter ende Further pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading

Regulations, 2015 read with amendments thereto an retering to the clarification regarding trading restriction period given by NSE vide letter dated April 02, 2019 vide Ro NSE/CML/2019/11 and BSE vide its letter dated April 02, 2019 vide Ref No. LLST/COMP/01/2019-20, the Tracting Window for dealing in the securities of the Company was arready closed for all Designated/Connected Persons fron July 01, 2020 till the end of 48 hours after declaration of inancial results for the quarter ended June 30, 2020. The aforesaid notice is also available on the Company! ebsite at www.allieddigital.net and may also be ass Stock Exchanges website where the shares of the Compar are Listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com. By Order of the Boar ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITE

CS Neha Bagl







By order of the Board of Directors

Managing Director and CEO

For Bajaj Holdings & Investment Limited



Place: Mumbai



स्थान : नई दिल्ली

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जीकृत कार्यालयः व ग्रेन्ड प्लाजा, प्लॉट नं. 2, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंच - फेस-॥, नई दिल्ली - 110 070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम. 2015 के विनियम 47 व अन्य लाग विनियमों के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैन्डलोन एवं कंसोलिडेटेडे अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ–साथ अनुमोदन के लिए **गुरूवार , अगस्त 13 , 2020** को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के लिए नीरजा शर्मा कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

विनांक : जुलाई 22, 2020

डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः १-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई शाखा कार्यालयः 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नः

दिल्ली-110002, फोन-011-41204444 कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV नियम 8(1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)

जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई फाईनेंस प्राईबेट लिमिटेड, कम्पनीज अधिनियम 1956 के अधी शामिल एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय- 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाहजफ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 एवं शाखा कार्यालय- 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाहजफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) एवं धारा 13 (2) सपठित (नियम 9) का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 जून 2019 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी मैसर्स एसएसजी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड एवं सह-ऋणी जेपीएस रीनफोर्स्ड पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री हरजीत सिंह साहनी, पता- डी-835 द्वितीय तल, न्यु फ्रेन्ड्स कॉलोनी दिल्ली- 110065 एवं निजी जमानतदारों श्री अर्जुन प्रीत सिंह एवं पम्मी साहनी और बंधककर्ता श्री हरजीत सिंह साहनी तथा चरणजीत सिंह साहनी को नोटिस में वर्णित राशि रू.11,01,64,031/- (रूपये ग्यारह करोड़ एक लाख चौसठ हजार दकतीय मात्र) उक्त नोटिस के मिलने की नागिख से 60 दिनों के भीतर अंटा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/निजी जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणियों, सह—ऋणियों / बंधककर्ताओं /निजी जमानतदारों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को साधारणतया एतद् द्वार सूचित किया जाता है कि अथोहस्ताक्षरी ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) के सपठित नियम 9 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 21 जलाई. 2020 को ले लिया है। ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/निजी जमानतदारों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें, निम्न वर्णित सम्पत्तियों में किया गया कोई भी संव्यवहार डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड, शाखा- 9-10, तृतीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाहजफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 के रू. 8,93,29,208/-(रूपये आठ करोड़ तिरानवे लाख उनतीस हजार दो सौ आठ मात्र) दिनांक 3 जुलाई, 2020 तक एवं दिनांक 4 जुलाई 2020 से बकाया अनुबंधों की दरों से आगे के ब्याज, आकस्मिक खर्चों, लागतों व प्रभारों इत्यादि का पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक के साथ अध्यधीन होगा।

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उप समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर, आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का वर्णन सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें भूमि का क्षेत्रफ़ल 4 एकड़, खसरा नं. 20, किला नं. 2 (8-0), 3(8-0), 4(8-0), 5(8-0), गांव किडावली के राजस्व एस्टेट के अंदर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित। (यहां इसे आगे "अनुसूची सम्पत्ति" के नाम से जाना गया है) (प्राधिकृत अधिकारी) डीएमआई फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड दिनांक : 21 जुलाई 2020, स्थान : फरीदाबाद

Indiabulls

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एम-62 और 63, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 CIN:L65922DL2005PLC136029

ई- मेल: homeloans@indiabulls.com, टेलि : 0124-6681199, फैक्स : 0124-6681240, वेबसाईट: http://www.indiabullshomeloans.com

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेअरधारकों के ध्यान के लिए विषय: कंपनी के इक्विटी शेअरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षो से या उससे अधिक भुगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेंअर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश के मूल्य को 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले दावा कर सकते है।

सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको क संपूर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट vww.indiabullshomeloans.com पर उपलब्ध है।

सभी शेअरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रूपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरोको अर्जित लाभ के साथ, यदी कोई हो तो, वह नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दावा कर सकते हैं।

गेअरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमो के अनसार कंपनी आईईपीएफ मे स्थानांतरित करने के उदेश्य से मूल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे।

यदि 31 जुलाई, 2020 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शरू करेगी।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पूछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज पाईवेट लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31- 32, गाचिबोली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 फोन: (91-40) 67162222; टॉल फी - 1800-345-4001 ; फैक्स नं.(91-40) 23001153; ईमेल einward.ris@kfintech.com

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्म लिमिटेड

: नई दिल्ली स्थान दिनांक : जुलाई 22, 2020

अमित जैन

कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

सार्वजनिक सूचना

सचित किया जाता है कि **लीवफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले** डोसाइल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ("कम्पनी"), कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय : WZ-106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027, 9 अगस्त 2001 दिनांकित रजिस्ट्रेशन प्रमाण सं. बी-14.02414 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी (एनबीएफसी) है। आरबीआई अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) 029 / सीजीएम (सीडीएस-2015) (जुलाई 09, 2015 दिनांकित) के तहत 17 जुलाई 2020 को कम्पनी की शेयरधारिता में निम्नलिखित परिवर्तन की आरबीआई से स्वीकृति मिल गई है:

- (क) डीईजी-ड्यूश इनवेस्टीशंस-उंड एंटविकलंगसेलशाफट एमबीएच (DEG - German Investment and Development Company) को प्रत्येक 10 रु. (केवल दस रुपये) के कुल 3,50,00,000 कम्युलेटिव कम्पलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर (सीसीसीपीएस) और प्रत्येक 10 रु. (केवल दस रुपये) के 10 इक्वीटी शेयर जारी करना।
- सीसीसीपीएस को इक्विटी में बदलने के बाद प्रस्तावित शेयरधारक की कम्पनी में कुल शेयरधारिता जारी की गई इक्वीटी शेयर पूंजी के 19 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और
- कम्पनी में श्री राहुल चंद्र मदान, श्री हर्षद मल्होत्रा, सुश्री पूजा सोंधी और श्री एस. के. दत्ता की शेयरधारिता क्रमशः 5.68%, 2.67%, 1%,

यह सूचना 09 जुलाई, 2015 दिनांकित अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी) 029 / सीजीएम (सीडीएस-2015) के अनुच्छेद 5 के अनुसार आरबीआई के प्रावधानों और आरबीआई से जारी अन्य संबद्घ विनियमों के अनुपालन में

यदि 17 जुलाई 2020 दिनांकित आरबीआई की स्वीकृति एवं इस सूचना में दिए विवरणों के अनुसार कम्पनी की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग निगरानी विभाग के संबंधित दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में लिख सकते हैं।

कृते लीवफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले डोसाइल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ("कम्पनी")

स्थान : नई दिल्ली पता : 1001 - 1003, 10वीं मंजिल, न्यू दिल्ली हाउस, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

तारीखः 23 जुलाई, 2020

थानः मेरठ

MPS Infotecnics Limited CIN: L30007DL1989PLC131190

Regd. Office: 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Ph. No.: +91 11 43571044; Fax: +91 11 43571047 Email: info@mpsinfotec.com; Website: www.mp

Notice

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, of the Listing Regulations 2015, meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, 30th July, 2020 at 1:00 p.m. at the registered office of the Company at 703, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter-alia, to consider and approve Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter and Year ended on March 31, 2020.

The said information is also available on the Company's website at www.mpsinfotec.com under Investors Zone and the same has been uploaded in NEAPS and BSE Listing Center and is also available on Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com.

For MPS Infotecnics Limited

Garima Singh

Company Secretary

Place · New Delhi Date: 23.07.2020

(A) IDBI BANK (CIN-L65190MH2004GOI148838)

एनपीए प्रबंधन समूह प्रथम तल, वीडियोकॉन टावर, ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, 011–6608 3023, 011–6608 3108

कारण बताओ नोटिश

कर्जदार : एलईईएल इलेक्ट्रीकल्स लि. पंजीकृत पता : यूनिट नंबर 8, ब्लॉक-ए, कर्कराला मेन रोड, सेक्टर-80,

इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-22, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 एतदद्वारा निम्नवर्णित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर द्वारा निर्धारित अनुसार साशय चुककर्ताओं की पहचान हेत् कार्यवाही आरंभ की गई है तथा आईडीबीआई बैंक द्वारा

जारी कारण बताओ नोटिस बिना तामील / बिना सपर्दगी वापस प्राप्त हुआ है।

ind street administration in districtly facility and districtly facil					
नाम एवं पता	पदनाम	साशय चूककर्ता हेतु मानदंड			
श्री अजय डोगरा, निवासी : एल-30/11, डीएलएफ सिटी-।।, गुड़गांव-122002	पूर्ण कालिक निदेशक	क्लॉज 2.1.3(बी) : निधियों का उपयोगान्तर : यूनिट ने उधारदाता के प्रति अपने मुगतान/प्रतिमुगतान दायित्वों की पूर्ति में चूक			
श्रीमती गीता अजीत टेकचंद, निवासी : मकान नंबर सी–630, सुशांत लोक, फेज–1, ग्राम कन्हाई, गुड़गांव–122009	स्वतंत्र	की है तथा उधारदाता से प्राप्त वित्त का उपयोग उन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु नहीं किया है, जिसके लिए वित्त प्राप्त किया गया था, अपितु निधियों को उपयोगान्तर अन्य प्रयोजनों हेत् किया है।			
श्रीमती दीप्ति सहाय निवासी : मकान नंबर 31, वित्रा विहार, नई दिल्ली—110092	निदेशक	2.2.1(बी) : उघार ली गई निधियों को उन प्रयोजनों/गतिविधियों अथवा आस्ति सृजन से इतर कार्यों में लगाना, जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।			
मैससं हिमालयन मिनरल्स वाटर प्रा. लि., सी–1/1, इंडस्ट्रियल एरिया, मेलाकी, देहरादून, उत्तराखंड–248001	कार्पोरेट गारेंटर	22.1(सी) : निष्टियां, भिन्न तौर-तरीकों द्वारा, अनुषंगी/समूह कम्पनियों अथवा अन्य कार्पोरेट को अंतरित करना। 2.2.1(डी) : उधारदाता की पूर्व अनुमति के बिना निधियों का लेन-देन उधारदाता बैंक अथवा संघ सदस्यों से इतर किसी अन्य बैंक के माध्यम से करना।			

जपरोक्त व्यक्ति, यदि वे इच्छुक हैं, इस सूचना की तिथि से 15 दिन के भीतर कारण बताएं कि क्यों नहीं उन्हें साशय चूककर्ता घोषित किया जाए तथा आरबीआई को प्रतिवेदित किया जाए।

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1) कब्चा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत . अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ . सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार अमित सागर और भारती सागर को 26.07.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLNOI00447667 की राशि रू.34,30,781/- (रुपए चौतीस लाख तीस हजार सात सौ डक्यासी मात्र) और 25.07.2019 के अनुसार उस पर व्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की ता रीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 21.07.2020 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रू.34.30.781/- (रुपए चौंतीस लाख तीस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) 25.07.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स् हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है

अचल संपत्ति का विवरण

बिल्ट अप अपार्टमेंट के सभी भाग और खंड फ्लैट नं.X-101, जिसका सुपर एरिया 125.41 स्के मी. (1350 स्के.फीट के बराबर) और कवर्ड एरिया 942.17 स्के.फीट. यानि 87.53 स्के.मी. पहर्ल मंजिल पर इमारत/टॉवर-'X 'इमारत के नीचे की जमीन के अविभाज्य , अपक्षपाति समानुपातिक हिस्सा और इमारत के कॉमन एरिया में अविभाज्य, समानुपातिक भाग के साथ उक्त कोम्पलेक्स के अंतर्गत सभी रहने वाले पूरे कॉम्पलेक्स में आरक्षित कार पार्किंग जगह के साथ पूरे परिसर के सामान उपयोग के अधिकार के साथ और सुविधाओ सलग्न सभी अधिकारों के शामिल होने के साथ, 'ओर्क्स होम्ज' नाम के रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स का भाग , गाँव बेहता हजीरापुर में स्थित, परगना लोनी तहसील और जिल्ला गाज़ियाबाद-201102, उत्तरप्रदेश और निम्ननुसार परिबद्ध है:

पूर्व	: टाइटल डीड के अनुसार	पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार
उत्तर	:टाइटल डीड के अनुसार	दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसा

दिनांक :21.07.2020 स्थान :गाजियाबाद

प्राधिकत अधिकारी दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (संशोधन) [दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण			
1.	निगमित कर्जदार का नाम	जैन स्टूडियोस लिमिटेड	
2.	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	3 जनवरी, 1991	
3.	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	आरओसी-दिल्ली	
4.	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/तिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेश नम्बर	L92199DL1991PLC042611	
5.	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय व	सिंधिया विला सरोजनी नगर रिंग रोड, नई दिल्ली,	
	मूल कार्यालय (यदि कोई है) का पता	डीएल-110023, भारत	
6.	निगमित कर्जदार के दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	26 फरवरी, 2020	
7.	इच्छा की अभिव्यक्ति आनंत्रण की तारीख	23 जुलाई, 2020	
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन	विवरण cirp.jainstudios@gmail.com पर ईमेल भेज	
	प्रस्ताव आवेदकों हेतु पात्रता जहां उपलब्धः	कर प्राप्त किया जा सकता है	
9.	घारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के नियम जहां उपलब्ध हैः	आईबीबीआई की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/legal_ framework/updated पर उपलब्ध है अथवा आरपी के पास cirp.jainstudios@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।	
10.	इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त होने की अंतिम तारीख	7 अगस्त, 2020	
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी होने की तारीख	14 अगस्त, 2020	
12.	अनंतिम सूची की आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख	17 अगस्त, 2020	
13.	प्रस्तावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	27 अगस्त, 2020	
	सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तारीख	17 अगस्त, 2020	
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा आगे की जानकारी प्राप्त करने का हेतु अनुरोध का प्रारूप	मेल के जिए आईबीसी 2016 की घारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता की शपथ प्राप्त होने के उपरांत दिवारा एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की घारा 29ए के अनुपालन तथा ऋणवाताओं की किमटी द्वारा यथा निर्धार पात्रता के नानवंड को पूरा करने वाले चुने गए प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के साथ प्रस्ताव पेशेवर द्वारा सूचना झापन, प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स साझा किया जाएगा।	
16.	प्रस्ताव योजनाएं जमा करने की अंतिम तारीख	16 सितम्बर, 2020	
	प्रस्ताव पेशेवर के पास प्रस्ताव योजनाएं जमा करने का प्रारूप	डाक/पंजीकृत डाक द्वारा मुहरबंद लिफाफे में अथवा हाथों हाथ साथ ही साथ ईमेल द्वारा सॉफ्ट कॉपी	
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकारी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तारीख	16 अक्टूबर, 2020	
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	श्री मनीष अग्रवाल, IBBI/IPA-002/IP-N00223/2016-2017/10904	
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता एवं ईमेल	श्री मनीष अग्रवाल, 707, साकेत, रोहतास स्वीट्स के विपरीत, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश ईमेल : manishfcs@gmail.com	
21.	प्रस्ताव पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईनेल	श्री मनीष अग्रयाल, 205, दूसरी मंजिल, रोहित हाउस, टोल्सटॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-01, ईमेल-आईडी: cirp.jainstudios@gmail.com	
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तारीख	23 जुलाई, 2020	

प्रस्ताव पेशेवर (IBBI/IPA-002/IP-N00223/2016-2017/10904) जैन स्टूडियोज लिमिटेड के मामले मे ईमेल : manishfcs@gmail.com

शुद्धिपत्र

सर्वल इंडिया प्रा. लि. के लेनदारों से दावे आमंत्रप के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी) व दिनांक 12 जून, 2020 के संस्करण में प्रकाशित फॉर्म ए में सार्वजनिक घोषणा के संदर्भ मे कमांक 7 पर इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस की प्तमाप्ति के लिए अनुमानित तिथि **8 जुलाई, 202**0 के बजाए 5 दिसंबर, 2020 पढ़ी जाए।

उक्त सार्वजनिक घोषणा के अन्य सभी विवरण प्रथावत रहेंगे। रीतेश कुमार अग्रवाल

संकल्प प्रफेशनल, सर्वल इंडिया प्रा. लि आईबीबीआई पंजी. सं: IBBI/IPA-00878/2017-18/1147: ई-मेलः carkagarwal@gmail.com **दिनांकः** 23.07.2020 resolvesipl@gmail.cor

> dhampur घामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

कॉर्पो कार्यालयः २४१, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज III, नई दिल्ली— 110020 **पंजी. कार्यालयः** धामपुर, डिस्टि. बिजनौर—246761, यु.पी CIN: L15249UP1933PLC000511

फोन: 011-30659400, फैक्स: 011-26935697 ई-मेलः investordesk@dhampur.com

वेनसाइटः www.dhampur.com लिस्टिंग विनियमों के विनियम 29 के तहत बोर्ड बैठक की सूचना

सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 30 जुलाई, 2020 को ऑडियो और विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई है जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन के लिए आयोजित की जाएगी।

हस्ता. 🖊

कंपनी सचिव

सदस्यता सं 22787

कृते घामपुर शुगर मिल्स लिमिटे

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 22.07.2020

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड CIN: L74899DL1984PLC018268 पंजीकृत कार्यालयः 72, भूतल, तैमूर नगर, नई दिल्ली-110065 दूरभाष सं. 011-41064256

फैक्स सं.: 011-26322664 ई-मेलः cs@oswaloverseasItd.com वेबसाइटः www.oswaloverseasitd.com

सूचना सेबी (सचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठिर विनियमन 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती i कि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष : त्रए लेखा परीक्षित वितीय परिणामों के साथ अन्य मुद पर विचार अनमोदन एवं अंगीकत करने के लिए ओसव ओवरसीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक पंजीक कार्यालय में बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2020 को अपरा 2.00 बजे आयोजित होगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.oswalov seasitd.com तथा स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई व वेबसाइट यानि www.bseindia.com पर भी देर जा सकती है।

कृते ओसवाल ओवरसीज लिमिटे लित कुमा कंपनी सचिव तारीखः 22 जुलाई, 2020

Marvel

मार्वल विनायल्स लिमिटेड [CIN: L74899DL1985PLC021085] गंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालयः जी-73, कनाँट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 ईमेलः cs@marvelvinvls.com वेबसाइटः www.marvelvinyls.com दूरभाषः +91-11-45306666

फैक्सः +91-11-45306677

बोर्ड की बैठक की सूचना सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता। विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33 एवं 47 अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 माच 2020 को समाप्त तिमाही/वित्त वर्ष के लिए लेख परीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ अन्य मुद्दों पर विच एवं अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंड की बैठक पंजीकृत कार्यालय में सोमवार,27 जुलाई 2020 को अपराहन 4.00 बजे आयोजित होगी। उक्त सचना कंपनी की वेबसाइट www.marve vinyls.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ww.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर र

थानः नई दिल्ली तारीख: 21 .07 .2020

कंपनी सचित ए अनुपालन अधिकार्र

खबरें

जो बढ़ाए

की स्पीड

पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम

देश और आपके प्रदेश की

सबसे बडी बिजनेस खबरें

शेयर और जिंस भाव के 5.5 पब्ने शेयर, म्यूच्युअल फंड और जिंस

के भाव. जिसों के 'कल के भाव'

और 'हाज़िर भाव' भी

कंपनी और जिस समाचार

मार्केट पर नजर, सोमवार से

राजनितिक और अन्य समाचार

मनोरंजन, स्वास्थ्य, बांड, खेल, टेक्नोलॉजी और

हर सोमवार एक आर्थिक या

सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और

व्यक्तित्व की बातें

विशेषज्ञों की राय

'आपका निवेश' और

'कारोबारी कानून'

अपनी प्रति के लिए

Call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575

विजनेस स्टैडर्ड

कंपनियों. स्टार्ट-अप और जिस

आपकी तरक्की

मैसर्स मार्वल विनायल्स लिमिटेड

Dixon

(INDIA) LIMITED
Registered Office: B-14 & 15, Phase-II,
Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com,
Website: www.dixoninfo.com
Phone: +91-120-4737200,
Fax: 0120-4737263,
CIN: L32101UP1993PLC066581

a meeting of the Board of Directors or the Company will be held on Tuesday, 4th August, 2020, to inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter ended 30th June, 2020.

For Dixon Technologies (India) Limited

Ashish Kuma Date: 22.07.2020

(A) IDBI BANK

नाम एवं पता

एनपीए प्रबंधन समूह प्रथम तल, वीडियोकॉन टावर, ई—1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, 011-6608 3023, 011-6608 3108

कारण बताओ नोटिश कर्जदारः केएमपी एक्सप्रेसवे लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय का पताः – ई –9, तीसरी मंजिल, दक्षिण विस्तार, भाग– II, नई दिल्ली – 110049 एतदद्वारा निम्नवर्णित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर द्वारा निर्धारित अनुसार साशय चूककर्ताओं की पहचान हेतु कार्यवाही आरंभ की गई है तथा आईडीबीआई बैंक द्वारा

पदनाम

हरावदर सिंह कोहली पुत्र श्री। प्रहलाद सिंह कोहली अपार्टमेंट नंबर 06, 1, लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली —110014	लिमिटेड के निदेशक	उपयोगान्तरः यूनिट ने उधारदाता के प्रति अपने भुगतान/प्रतिभुगतान दायित्वों की पूर्ति में चूक
राम कुमार सैनी एस ६ ओ श्री रिछपाल सैनी डी ॥/195, काका नगर, नई दिल्ली — 110003		की है तथा उधारदाता से प्राप्त वित्त का उपयोग उन विनिर्देष्ट प्रयोजनों हेतु नहीं किया है, जिसके लिए वित्त प्राप्त किया गया था, अपितु निधियों को उपयोगान्तर अन्य प्रयोजनों हेतु किया है।
डीएससी लिमिटेड सी — 66, साउथ एक्सटेंशन पार्ट— II, नई दिल्ली — 110049		2.2.1 (सी): निधियां, भिन्न तौर–तरीकों द्वारा, अनुषंगी / समूह कंपनियों अथवा अन्य कार्पोरेट को अंतिरित करना

साशय चूककर्ता घोषित कियाँ जाए तथा आरबीआई को प्रतिवेदित किया जाए। भवदीय, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

उपरोक्त व्यक्ति, यदि वे इच्छुक हैं, इस सूचना की तिथि से 15 दिन के भीतर कारण बताएं कि क्यों नहीं उन्हें

साशय चूककर्ता हेतु मानदंड

(A)



स्थान : **मंगलूरु**

दिनांक: 22/07/2020

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपाक्रम एवं ओपनोजीसी की सहायक कंपनी) Corporate Identity Number: L23209KA1988601008859 पंजीकृत कार्यालय: मुडपदव, पोस्ट कृतेतुर, वाया काटिपल्ला, मंगलूरु - 575030 E-mail: investor@mrpl.co.in Website: www.mrpl.co.in

— सेबी लिस्टिंग विनियमन 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सोमवार, **03 अगस्त 2020** को कंपनी के निदेशक-मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ **30 जन 2020** को समाप्त

तिमाही वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट www.mrpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी उपरोक्त नोटिस

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए

ह./- दिनेश मिश्र कंपनी सचि

नोंट : 1) सेबी ने आदेश किया है कि शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए अनुरोध तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि जमाकर्ताओं के साथ डिमटेरियलाइच्ड फॉर्म में शेयर नहीं होते हैं। इसके संदर्भ में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटर्र प्रतिभागियों के साथ डीमैट खाता खोलें और आसानी से नकदी के लिए शेयरों को डिमटेरियलाइज करें।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे जल्द ही अपने केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा करें। डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ईमेल पर कंपनी से संपर्क प्राप्त करने के लिए अपने ईमेलआईडी को अपने संबंधित डीपी के साथ अपडेट करें।

आईए, हम एक साथ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें।



संबंधी सचना प्राप्त की जा सकती है।

PUBLIC NOTICE

We the STATE BANK OF INDIA, SME VATIKA, FIRST INDIA PLACE, MAHRAULI-GURGAON ROAD, SECTOR-28, GURUGRAM-122002, would like to inform to the General Public that the Original Sale / Title Deeds of the following Properties, which are MORTGAGED with the above named Bank by the Owner of the following properties as security of the Financial Facilities disburshed to M/s. MONIKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, GURGAON & M/s. GLS FILMS AND INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, GURGAON as detailed (1) SALE DEED VASIKA No. 11914, BAHI No. I, ZILD No. 8456/8738 on PAGE No. 61-64 and a copy of the same pasted in the ADDITIONAL BAHI No. I, ZILD No. 778/774 on PAGE No. 157 on DATED 14-09-2005 registered in the Office of SUB REGISTRAR GURGAON and (2) DEED OF RECTIFICATION VASIKA No. 12547, BAHI No. I, ZILD No. 8488/9408 on PAGE No. 143/90-91 and a copy of the same pasted in the ADDITIONAL BAHI No. I, ZILD No. 1305/813 on PAGE No. 28-29/40 on DATED 14-09-2006 registered in the Office of SUB REGISTRAR, GURGAON and (3) SALE DEED Vasika No. 11956 in Bahi No. I, Zild No. 11162 on Page No. 51 and the copy of the sdame pasted in the Additional Bahi No. I, Zild No. 904 on Page No. 29-30 on dated 07-10-2009 in the Office of SUB REGISTRAR, GURGAON (HARYANA) of FREEHOLD BUILT UP PROPERTY OFFICE SPACE No. 310-B, THIRD FLOOR SUPER AREA 745.14 Sq. Fts., in the Multi-Storeyed Commercial Complex called 'JMD PACIFIC SQUARE' constructed on a piece of land measuring 37 Kanals 17 María equilant to 4.731 Acres situated at SECTOR-15, PART-II, Revenue Estate of Villages SILOKHERA, TEHSIL & DISTRICT GURGAON (HARYANA) owned by (1) Mr. SANDEEP GOYAL S/o. Sh. RAM BILAS GOYAL & (2) Mrs. MONIKA GOYAL W/o. Sh. RAJESH GOYAL both R/o. HOUSE No. 263, SECTOR-14, GURGAON, AND (4) SALE DEED VASIKA No. 3437, BAHI No. I, ZILD No. 8446/8524 on PAGE No. 107/69-70 and a copy of the same pasted in the ADDITIONAL BAHI No. I, ZILD No. 632/763 on PAGE No. 61-62/173 on DATED 13-05-2005 in the Office of SUB REGISTRAR,

GURGAON (HARYANA), and (5) SALE DEED Vasika No. 16374, BAHI No. I, ZILD No. 13092 on PAGE No. 84 and a copy of the same pasted in the ADDITIONAL BAHI No. I, ZILD No.3860 on PAGE No. 77-79 on DATED 30-09-2014 in the Office of SUB REGISTRAR GURGAON (HARYANA) of FREEHOLD BUILT UP PROPERTY OFFICE SPACE No. 311, THIRD FLOOR SUPER AREA 1484.65 Sq Fts., in the Multi-Storeyed Commercial Complex called 'JMD PACIFIC SQUARE' constructed on a piece of land measuring 37 Kanals 1 Marla equilant to 4.731 Acres situated at SECTOR-15, PART-II, Revenue Estate of Villages SILOKHERA. TEHSIL & DISTRICT GURGAON (HARYANA) owned by (1) Mrs. MONIKA GOYAL W/o. Sh. RAJESH GOYAL & (2) Mr. SANDEEP GOYAL S/o. Sh. RAM BILAS GOYAL both R/o. HOUSE No. 263, SECTOR-14, GURGAON
AND (6) CONVEYANCE DEED VASIKA No.2872, in ADDITIONAL BAHI No. I, ZILD No. 118/62 on PAGE No. 152/7-8 on DATED 01-02-

2012 registered in the Office of SUB REGISTRAR, MANESAR (Haryana) of FREEHOLD BUILT UP PROPERTY INDUSTRIAL PLOT / SHED BEARING No. 259, Situated at SECTOR-06, in INDUSTRIAL ESTATE, IMT MANESAR, TEHSIL - MANESAR, DISTRICT GURGAON (HARYANA) owned by (1) Mr. SANDEEP GOYAL S/o. Sh. RAM BILAS GOYAL & (2) Smt. KANTA GOYAL W/o. Sh. RAM

BILAS GOYAL both R/o, GURGAON, has been LOST / MISPLACED.
It is further informed and cautioned to the general public that the above detailed properties has been MORTGAGED with the Bank and all the above detailed Title Deeds were deposited as Collateral Security, as such if any person deals with the above mentioned properties and/or the above detailed Title Deeds then that person will be liable / responsible to compensate the Bank for its each & every type of Losses suffered by the Bank and that person will also liable to face Criminal Consequences as per law applicable in India. It is further informed & requested that if any person who find these above detailed Title Deeds to return the same to the Bank at below ntioned address immediately

ASSISTANT GENERAL MANAGER BRANCH HEAD STATE BANK OF INDIA, SME VATIKA, FIRST INDIA PLACE, MAHRAULI-GURGAON ROAD,

SECTOR-28, GURUGRAM-122002

mycem

HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301

Read, Office: 9th Floor, Infinity Tower - C. DLF Cyber City Phase II, Gurugram, Haryana - 122 002 Ph.: 0124 - 4503700, Fax: 0124 - 4147698

Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2020

QI	Particulars	3 months	Dreceding	Corresponding	₹ in Million Previous
oı. No.	Particulars	ended	3 months	3 months	Year ended
NO.		30.06.2020		ended	31.03.2020
		30.00.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
			(Refer note 3)	30.06.2019	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Revenue from operations				
	a. Sales/Income from operations	4,062.7	5,092.9	5,824.4	21,576.4
	b. Other operating revenue	14.3	4.8	67.9	119.8
	Total Revenue from operations	4,077.0	5,097.7	5,892.3	21,696.2
2	Other income	97.8	170.2	118.3	527.3
3	Total income (1+2)	4,174.8	5.267.9	6,010.6	22,223.5
4	Expenses	.,	-,	-,	
	a.Cost of materials consumed	704.3	878.7	1,056.5	3,835.9
	b. Changes in inventories of finished goods	22.9	(120.9)	73.0	50.6
	and work-in-progress		(,		
	c. Employee benefits expense	269.1	339.5	314.5	1,311.9
	d.Finance costs	159.9	162.5	198.2	738.5
	e.Depreciation and amortisation expense	276.3	275.3	278.6	1,086.1
	f. Power and fuel	836.5	1,118.6	1,215.2	4,736.0
	g.Freight and forwarding expense	551.9	689.5	796.9	2,879.0
	h.Other expenses	609.0	918.9	859.6	3,604.9
	Total expenses (a to h)	3,429.9	4,262.1	4,792.5	18,242.9
5	Profit before exceptional items & tax (3-4)	744.9	1,005.8	1,218.1	3,980.6
6	Exceptional items	744.0	1,000.0	1,210.1	0,000.0
7	Profit/(Loss) before tax (5-6)	744.9	1,005.8	1,218.1	3,980.6
8	Tax expense	7-7-0	1,000.0	1,210.1	0,000.0
٠	Current tax	130.4	172.8	262.8	691.7
	Deferred tax	125.1	172.0	165.0	608.3
9	Net Profit/(Loss) for the period (7-8)	489.4	662.9	790.3	2,680.6
	Other comprehensive income	703.7	002.3	750.5	2,000.0
10	i Items that will not be reclassified to	_	(17.8)	_	(25.7)
	Profit & Loss	_	(17.6)	_	(25.7)
	ii Income tax relating to items that will not	_	6.2	_	9.0
	be reclassified to Profit & Loss	_	0.2	-	9.0
	Total Other comprehensive income				
	(net of tax)		(11.6)		(16.7)
44	Total Comprehensive Income after tax (9+10)	489.4	651.3	790.3	2,663.9
	Paid-up equity share capital	2.266.2	2,266.2	2.266.2	2,063.9
12		2,200.2	2,200.2	2,200.2	2,200.2
42	(Face Value is ₹10 per share)				10 000 0
	Other Equity	-	-	-	10,880.2
14	Earnings per share of ₹10 each - Not				
	annualised	0.40	0.00	0.46	44.00
	(a) Basic (in ₹)	2.16	2.93	3.49	11.83
	(b) Diluted (in ₹)	2.16	2.93	3.49	11.83

The Company operates in a single segment i.e. manufacture and sale of Cement.
 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 22 July 2020.

3) The figures for the quarter ended 31 March 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the unaudited published year-to-date figures upto 31 December 2019 which were subjected to

 In compliance with the directions issued by the Central and State Governments to contain the spread of COVID-19 pandemic, the Company suspended manufacturing operations in its plants in the last week of March 2020. The operations were resumed in a phased manner with effect from 20 April 2020 under strict observance of guidelines issued by respective district administrations to mitigate the risk of COVID-19. The Company is taking all possible steps to mitigate the effect of COVID-19 on its business and operations to the extent possible and has considered all possible effects from COVID-19 in the preparation of these financial results. The management has also evaluate

the possible impact of the pandemic on the business operations and based on its assessment of the curren indicators of the future economic conditions, it is expected that the carrying amount of assets will be recovered.

5) Figures of the previous year / periods have been reclassified / regrouped / restated, wherever necessary. For and on behalf of the Board of Director

(Jamshed Naval Cooper) Place: Gurugram Date: 22 July 2020

DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED

NOTICE Pursuant to Regulation 47 read with Regul 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the

Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindlia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Gr. Company Secretary & Compliance Officer

स्थानः नई दिल्ली

स्वच्छ (मारत एक कहन स्वच्छा को ओ